

Total No. of Questions : 5] [Total No. of Printed Pages : 15

**Paper Code : 12510**

**2517**

**B.Com. (Part II) (Improvement)  
Examination, 2019**

**(Three-year Degree Course)**

**(New Course)**

**(Group-B)**

**INCOME-TAX**

**Paper-II**

**Time : 3 Hours ]**

**[ Maximum Marks : 100**

**Note :-** Attempt all Sections as directed.

निर्देशानुसार सभी खण्डों के उत्तर दीजिए।

**Section-A**

**(खण्ड-अ)**

**Long Answer Type Questions** 20 each

**(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)**

**Note :-** Attempt all the *three* questions.

सभी तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

**SC-436**

**( 1 )**

**Turn Over**

1. What do you mean by Agricultural Income ? What are its kinds ? State ten incomes which are related to land but not agricultural income.

कृषि आय से आप क्या समझते हैं ? इसके प्रकार क्या हैं ? ऐसी दस आयें बताइए जो भूमि से सम्बन्धित हैं लेकिन कृषि आयें नहीं हैं।

*Or*

**(अथवा)**

Dr. Suraj Shah is a lecturer in Delhi University, Delhi. The following are the details of his income for the previous year 2017-18 :

Basic salary	per month @ ₹ 16,800
Dearness allowance	@100 per cent of salary
Transport allowance	₹ 45,000
House rent allowance	₹ 72,000
Remuneration as an examiner	₹ 4,000

**SC-436**

**( 2 )**

Dr. Suraj Shah is a member of statutory provident fund to which he contributes 8% of his salary, the university is contributing an equal amount. During the previous year he spend ₹ 2,000 on books purchased for teaching purpose. He lives in a rented house, the rent payable being ₹ 7,000 p.m.

His others incomes are :

- (i) Interest on P.O. Savings Bank A/c in joint names ₹ 8,000.
- (ii) Interest on Savings A/c in a Bank ₹ 8,000.

Compute Dr. Suraj Shah's taxable income for the Assessment Year 2018-19.

डॉ. सूरज शाह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता हैं। गत वर्ष 2017-18 में उनके आय सम्बन्धी विवरण निम्न हैं :

मूल वेतन	प्रति माह @ ₹ 16,800
महंगाई भत्ता	वेतन का @ 100 प्रतिशत
यातायात भत्ता	₹ 45,000
मकान किराया भत्ता	₹ 72,000
परीक्षक के रूप में पारिश्रमिक	₹ 4,000

डॉ. सूरज शाह वैधानिक प्रॉविडेंट फण्ड के सदस्य हैं जिसमें वह वेतन का 8% अंशदान करते हैं। विश्वविद्यालय भी इतनी ही शि का अंशदान करता है। उन्होंने गत वर्ष में अध्यापन कार्य हेतु पुस्तकों के क्रय पर ₹ 2,000 व्यय किया। वह किराए के मकान में रहते हैं जिसका किराया ₹ 7,000 प्रति माह है। उनकी अन्य आय है :

- (i) डाकघर में संयुक्त बचत खाते पर ब्याज ₹ 8,000
- (ii) एक बैंक में बचत खाते पर ब्याज ₹ 8,000

डॉ. सूरज शाह की कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 की करयोग्य आय की गणना कीजिए।

2. Explain any fifteen items which are not included in total income. Whether income of ICAI is exempted from tax ?

ऐसी पंद्रह आय की मदों को समझाइये जो कुल आय में नहीं जोड़ी जायेंगी। क्या आई.सी.ए.आई. की आय कर से मुक्त है ?

Or

(अथवा)

Mr. X is the owner of a house at Agra, particulars in respect of which for the year ended 31st March, 2018 are as below :

	₹
1. Actual rent received	4,500
2. Municipal valuation	4,200
3. Total Municipal tax	630
4. Municipal tax paid by Mr. X	420
5. Municipal tax paid by the tenant	210
6. Interest on loan taken for renewing the house	150
7. Unrealised rent allowed in the assessment year 2014-15 recovered during the year	2,000

Compute Mr. X's income from house property for the Assessment Year 2018-19.

मि. X आगरा में एक मकान का स्वामी है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इसका विवरण निम्न प्रकार है :

	₹
1. वास्तविक प्राप्त किराया	4,500
2. नगरपालिका मूल्यांकन	4,200
3. कुल नगरपालिका कर	630
4. मि. X द्वारा चुकाया गया नगरपालिका कर	420
5. किरायेदार द्वारा चुकाया गया नगरपालिका कर	210
6. मकान के नवीनीकरण के लिए प्राप्त ऋण पर ब्याज	150
7. कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 में स्वीकृत न वसूल हुआ किराया गत वर्ष में वसूल हो गया	2,000

कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए मि. X की मकान-सम्पत्ति शीर्षक की आय निकालिए।

What are the types of assessment under the Income-tax Act ? Discuss.

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण के प्रकार क्या हैं ? चर्चा कीजिए।

Or

(अथवा)

The following particulars are of taxable income under the various heads of Mr. Keshwanand for the previous year 2017-18 :

	₹
(1) Income from house property	18,000
(2) Income from the following business :	
(a) Profit from the cloth business	35,000
(b) Loss from Sugar Business	16,000
(c) Loss from Silver Business	22,000
(d) Loss from Share Speculation	15,000
(e) Profit from Specified Business	70,000
(3) Income from other sources	60,000

Loss from house property for the Assessment Year 2017-18 is brought forward ₹ 7,500.

Loss from specified business brought forward for the Assessment Year 2017-18 ₹ 1,00,000.

Compute Gross Total Income after setting off the losses. Is there any loss which can be carry forward ?

मि. केशवानन्द की गत वर्ष 2017-18 की विभिन्न शीर्षकों की कर-योग्य आय का विवरण निम्न प्रकार है :

	₹
(1) मकान सम्पत्ति से आय	18,000
(2) निम्न व्यापारों से आय :	
(अ) कपड़े के व्यापार से लाभ	35,000
(ब) शक्कर के व्यापार से हानि	16,000
(स) चाँदी के व्यापार से हानि	22,000
(द) अंशों के सट्टे के व्यापार से हानि	15,000
(इ) निर्दिष्ट कारोबार से लाभ	70,000
(3) अन्य साधनों से आय	60,000

http://www.mjpruonline.com

http://www.mjpruonline.com

http://www.mjpruonline.com

http://www.mjpruonline.com

कर-निर्धारण वर्ष 2017-18 की मकान सम्पत्ति की हानि ₹ 7,500 आगे लाई गई।

कर-निर्धारण वर्ष 2017-18 की निर्दिष्ट कारोबार की हानि ₹ 1,00,000 आगे लाई गई।

हानियों की पूर्ति करते हुए सकल कुल आय की गणना कीजिए। क्या कोई हानि पूर्ति के लिए आगे ले जाई जा सकती है ?

**Section-B**

(खण्ड-ब)

**Short Answer Type Questions** 6 each

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

4. Attempt any five questions :

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) Define 'person' under the Income-tax Act, 1961.

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत 'व्यक्ति' को परिभाषित कीजिए।

(ii) Illustrate with example integration of Agriculture income with Non-agriculture Income.

कृषि आय का गैर-कृषि आय के साथ सम्मिलित किया जाना उदाहरण सहित दर्शाइए।

(iii) How is residential status of an individual determined ?

एक व्यक्ति की निवासीय स्थिति कैसे निर्धारित होती है ?

(iv) Discuss provision of valuation of rent free accommodation.

किराया मुक्त मकान के मूल्यांकन के प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

(v) Explain deduction under Section 80 G of the Income-tax Act, 1961.

आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 80 G की कटौती को स्पष्ट कीजिए।

(vi) What is Re-assessment ?

पुनः कर-निर्धारण क्या है ?

(vii) What do you mean by Advance Payment of Tax ?

कर का अग्रिम भुगतान से आप क्या समझते हैं ?

(viii) State the penalty for failure to get accounts audited.

लेखों का अंकेक्षण कराने में चूक के सम्बन्ध में अर्थ-दण्ड बताइए।

### Section-C

(खण्ड-स)

#### Objective Type Questions

2 each

(वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

5. Select the correct answer.

सही उत्तर का चयन कीजिए।

SC-436

( 11 )

Turn Over

(i) Rate of Income-tax are fixed under :

(a) The Income-tax Act

(b) The Finance Act

(c) An Ordinance

(d) Notification of C.B.D.T.

आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं :

(अ) आयकर अधिनियम द्वारा

(ब) वित्त अधिनियम द्वारा

(स) अध्यादेश द्वारा <http://www.mjpruonline.com>

(द) C.B.D.T. की अधिसूचना द्वारा

(ii) Income Accruing in India is assessable for :

(a) All Assesseees

(b) Resident in India

(c) Not ordinarily resident in India

(d) Non-resident in India

SC-436

( 12 )

भारत में उपार्जित आय कर-योग्य होती है :

- (अ) सभी करदाताओं के लिए
- (ब) निवासी के लिए
- (स) असाधारण निवासी के लिए
- (द) अनिवासी के लिए

(iii) X Ltd. spent ₹ 1,00,000 as preliminary expenses on 31st March, 2017 deduction allowed is :

- (a) ₹ 10,000
- (b) ₹ 25,000
- (c) ₹ 7,143
- (d) ₹ 20,000

31 मार्च, 2017 को X लिमिटेड ने ₹ 1,00,000 प्रारम्भिक व्यय किये, स्वीकृत कटौती होगी :

- (अ) ₹ 10,000
- (ब) ₹ 25,000
- (स) ₹ 7,143
- (द) ₹ 20,000

(iv) Long-term capital loss can be set-off from :

- (a) Short-term capital gains
- (b) Long-term capital gains
- (c) Capital gains
- (d) Any income

दीर्घकालीन पूँजी हानि की पूर्ति की जा सकती है :

- (अ) अल्पकालीन पूँजी लाभ से
- (ब) दीर्घकालीन पूँजी लाभ से
- (स) पूँजी लाभ से
- (द) किसी भी आय से

(v) First instalment of Advance Tax Payable falls due on :

- (a) July, 15
- (b) June, 20
- (c) June, 15
- (d) March, 15

अग्रिम कर की प्रथम किस्त की देय तिथि है :

(अ) 15 जुलाई

(ब) 20 जून

(स) 15 जून

(द) 15 मार्च

<http://www.mjpruonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से